

IMC

WILD AMLA SHAKTI RAS WITH HERBS



Aloe Vera

Ginger

Ashwagandha

500 ml

Wild Amla Shakti Ras with Herbs

MAKE LIFE FULL OF ENERGY WITH IMC AMLA SHAKTI RAS!

IMC has brought in Amla Shakti Ras containing a good amount of Amla, Ghritkumari, Dalchini, Ashwagandha Ext, Brahmi Ext, Shankhpushpi Ext. Due to presence of all these, one can get rid of recurrent health problems and boost the immune system. It's an instant energy provider.



Amla:

Amla contains rich oxidants which reduce the risk of chronic and recurrent health problems. Amla is also an excellent source of vitamins, iron and calcium. Amla is also linked with benefits like improved memory.



Ghritkumari:

Ghritkumari (Aloe Vera) has amazing health benefits. It acts as detoxifying agent. It boosts immunity, provides healthy digestion, maintains hygiene, soothes the skin, provides hair care, helps to get glowing skin, reduces inflammation and prevents constipation. In real sense, due to the wide range of numerous benefits of Ghritkumari, it is known to treat and prevent various ailments.



Dalchini:

Dalchini is a highly delicious spice. It has been prized for its medicinal properties. Dalchini is loaded with antioxidants. It may cut the risk of heart diseases. It has anti inflammatory properties. It helps lower blood sugar level and has a powerful anti diabetic effect.



Brahmi Ext:

A perfect booster for brain functioning, it is a general tonic to fight stress and anxiety. Brahmi Ext is also anti allergic. It can improve memory. It contains powerful antioxidants. It may reduce inflammation. It may help lower blood pressure and have anti cancer properties.

How To Use:

- Take 30 ml of IMC Amla Shakti Ras with lukewarm or fresh water twice a day or as directed by the physician. Shake well before use. Store in a cool, dark and dry place.

Benefits:

- As name suggests, IMC Amla Shakti Ras improves stamina and boosts immunity.
- It provides instant energy.
- It is anti ageing and useful in digestion.



जड़ी-बूटियों से युक्त वाइल्ड आँवला शक्ति रस

आई.एम.सी आँवला रस के साथ अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएं!

आई.एम.सी लेकर आई है आँवला शक्ति रस। जिसमें आँवला, घृतकुमारी, दालचीनी, अश्वगंधा सत्त, ब्रह्मी सत्त और शंखपुष्पी सत्त अच्छी मात्रा में शामिल हैं। इन सभी की उपस्थिति के कारण, व्यक्ति बार-बार होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पा सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा सकता है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है।



आँवला :

आँवला में उच्च मात्रा में ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो पुरानी और बार-बार होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। आँवला विटामिन्स, आयरन और कैल्शियम का भी बेहतरीन स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि आँवला याददाश्त में सुधार करने में भी लाभकारी है।



घृतकुमारी :

घृतकुमारी के अद्भुत लाभ हैं। यह डिटॉक्सीफाई एजेंट की तरह कार्य करता है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाने, स्वस्थ पाचन प्रदान करने, स्वच्छता को बनाए रखने, त्वचा को कोमल बनाने, बालों की देखभाल करने, चमकदार त्वचा प्राप्त करने, सूजन को कम करने और कब्ज से बचाने में मददगार है। सही मायने में, एलोवेरा के असंख्य लाभों के कारण, इसे विभिन्न रोगों से बचाने और उसका इलाज करने के लिए जाना जाता है।



दालचीनी :

दालचीनी बेहद ही स्वादिष्ट मसाला है। अपने औषधीय गुणों के कारण इसे बेशकीमती माना जाता है। दालचीनी एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। यह हृदय रोगों के खतरे को कम करने में सहायक है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मददगार है। इसमें शक्तिशाली एंटी-डायबेटिक प्रभाव पाए जाते हैं।



ब्रह्मी :

मस्तिष्क कार्यप्रणाली के लिए यह उत्तम बूस्टर है। तनाव और चिंता से लड़ने के लिए यह एक सामान्य टॉनिक है। ब्रह्मी सत्त एंटी-एलर्जिक भी है। यह याददाश्त में सुधार कर सकता है। इसमें शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यह सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। यह रक्तचाप को कम करने में मददगार है और इसमें एंटी-कैंसर गुण पाए जाते हैं।

उपयोग करने की विधि :

- 30 मि.ली आँवला शक्ति रस को दिन में दो बार गुनगुने या ताजे पानी के साथ या चिकित्सक के परामर्श अनुसार सेवन करें। इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से हिलायें। ठंडे और सूखे स्थान पर रखें।

लाभ :

- आँवला शक्ति रस स्टेमिना और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करने में मदद करता है।
- यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है।
- यह एंटी-एजिंग है और पाचन में उपयोगी है।

